

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 369]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई 2017—आषाढ़ 30, शक 1939

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन सदन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्र. एफ-53-एनएन-01-2017-पांच-574.—मध्यप्रदेश शासन एवं कतिपय आदिवासी संगठनों द्वारा आयोग को प्रेषित प्रस्ताव में दिनांक 9 अगस्त 2017 को विश्व आदिवासी दिवस होने के कारण मतदान तिथि 9 अगस्त, 2017 को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है.

आयोग द्वारा प्रस्ताव पर विचार कर मतदान एवं मतगणना तिथियों में आंशिक रूप से परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नगरपालिका परिषद् नगर परिषदों के आम निर्वाचन वर्ष 2017 उप निर्वाचन वर्ष 2017 एवं अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने के निर्वाचन वर्ष 2017 हेतु जारी निर्वाचन कार्यक्रम दिनांक 14 जुलाई 2017 में मतदान एवं मतगणना की तिथियां निम्न अनुसार संशोधित की जाती है:—

स.क्र.	कार्यवाही	पूर्व में निर्धारित तिथि (तारीख)	संशोधित तिथि (तारीख)	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मतदान (यदि आवश्यक हो)	9-8-2017 (बुधवार)	11-8-2017 (शुक्रवार)	प्रातः 7.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक.
2	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा.	12-8-2017 (शनिवार)	16-8-2017 (बुधवार)	प्रातः 9.00 बजे से

हस्ता./—
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.